



बाल भारती स्कूल, बहादुरगढ़

शैक्षणिक सत्र 2019-20

अर्धवार्षिक परीक्षा

विषय :- हिंदी

कक्षा :- पाँच

समय :- 3 घंटे

तिथि :- 27.09.2019

अंक :- 80

सामान्य निर्देश : 1) इस प्रश्न-पत्र में कुल 19 प्रश्न, 3 पृष्ठ हैं और चार खंड क, ख, ग, घ हैं ।

2) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खंड के अनुसार ही लिखें ।

3) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

(खंड - क)

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

(5)

स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अतिआवश्यक हैं। व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय सदा कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए । तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए । व्यायाम के अनेक लाभ हैं - इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।

क) स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है ?

ख) व्यायाम के क्या-क्या लाभ हैं ?

ग) सभी प्रकार के सुखों का भोग कौन कर सकता है ?

घ) व्यायाम करते समय पहली सावधानी क्या बरतनी चाहिए ?

ङ) व्यायाम कैसे स्थान पर करना चाहिए ?

(खंड - ख)

प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद का नाम लिखिए :-

(2)

क) तुषार सुंदर लड़का है ।

ख) माँ ने पाँच खिलौने खरीदे ।

प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद का नाम लिखिए :-

(2)

क) तुम किससे मिलना चाहते हो ?

ख) जो मेहनत करेगा, वह सफल होगा ।

प्रश्न 4 वचन बदलिए :- क) पुस्तक ख) गुरुजन ग) महिला घ) देवियाँ

(2)

प्रश्न 5 लिंग बदलिए :- क) अध्यापिका ख) लेखक ग) सुनार घ) माता

(2)

प्रश्न 6 नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए :- (2)

क) मीठा ख) मिलाना ग) पराया घ) बच्चा

प्रश्न 7 दिए गए शब्दों के तत्सम / तद्भव रूप लिखिए :- (2)

क) हस्त ख) अग्नि ग) दूध घ) आम

प्रश्न 8 नीचे दिए गए वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके पुनः लिखिए :- (2)

क) मेज में आम रखा है ।
ख) रोहन खिलाड़ियों में खेल रहा है ।

प्रश्न 9 निर्देशानुसार उत्तर लिखिए :-

क) दो- दो पर्यायवाची शब्द लिखिए - सूर्य , कमल (2)

ख) विलोम शब्द लिखिए - आकाश , सौभाग्य , आस्तिक , जीवित (2)

ग) श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए - (2)

i) पवन - पावन ii) दिन - दीन

घ) वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए - (2)

i) जिसका आकार न हो ii) प्रतिदिन होने वाला iii) जो बहुत बोलता हो iv) जिसमें बल न हो

प्रश्न 10 वर्ण-विच्छेद कीजिए :- i) राकेश ii) मधुर (2)

प्रश्न 11 कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए :- (3)

(मौखिक , व्याकरण , लिपि , 14 सितंबर, बाईस, रोमन)

क) भाषा के लिखने के ढंग को _____ कहते हैं ।

ख) रेडियो सुनना भाषा का _____ रूप है ।

ग) भारत में अब _____ भाषाएँ प्रचलित हैं ।

घ) अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम _____ है ।

ङ) _____ भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है ।

च) हिंदी दिवस _____ को मनाया जाता है ।

प्रश्न 12 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए :- (3)

क) हाथ बँटाना ख) लाल-पीला होना ग) घी के दीये जलाना

(खंड- ग)

प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के कवि व कविता का नाम लिखते हुए सरलार्थ कीजिए :- (5)

मैं देख रही थी अभी - अभी,
ये भी मुझ जैसे मचल रहीं ।
क्या जाने अब क्या मिला इन्हें,
भर-भर उमंग में उछल रही ॥
तट से आ-आकर हँस-हँसकर,
अपनी बातें कह जाती हैं ।
माँ ! ये लहरें भी गाती हैं ॥

अथवा

- क) ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय ।
औरन को सीतल करे, आपहुं सीतल होय ॥
ख) रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय ।
सुनि इठलैहैं लोग सब , बांटे न लैहे कोय ॥

प्रश्न 14 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए :- (6)
क) संकलित करना ख) भ्रमण ग) सैलानी घ) तट ङ) निर्भीक च) प्राचीन

प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किन्हीं सात प्रश्नों के उत्तर लिखिए:- (7x2=14)

- 1) पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं ?
- 2) राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा ?
- 3) चाणक्य ने मुरा से क्या कहा ?
- 4) जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों जरूरी है ?
- 5) नक्की झील के बारे में बताइए ।
- 6) एनी सुलिवन ने हेलेन को कैसे प्रशिक्षित किया ?
- 7) सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा ?
- 8) क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई ?

(खंड -घ)

प्रश्न 16 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 70-80 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए :- (5)
क) मेरा विद्यालय ख) यदि मैं कक्षा का मॉनीटर होता ग) खेलों का महत्व

प्रश्न 17 परीक्षा परिणाम आने पर माँ और बेटे के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए । (5)
(अथवा)

विद्यालय की ओर से पिकनिक पर गए दो छात्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए ।

प्रश्न 18 अपने विद्यालय की प्रधानाचार्या जी को खेल की सुविधाएँ बढ़ाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र लिखिए । (5)
(अथवा)

अपने विद्यालय की प्रधानाचार्या जी को अपनी फ़ीस माफ़ करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र लिखिए । (5)

प्रश्न 19 अपनी मनपसंद आइसक्रीम या चॉकलेट के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए । (5)
